

प्रेषक,

अमित सिंह नेगी,  
सचिव, वित्त  
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,  
उत्तराखण्ड।

वित्त अनुभाग-1

देहरादून:: दिनांक: 03 जुलाई, 2017

विषय:- 14वाँ वित्त आयोग की संस्तुतियों पर लिये गये निर्णय के अनुसार वित्तीय वर्ष 2017-18 की प्रथम किश्त (मूल अनुदान) की धनराशि को ग्राम पंचायतों के लिए संकमण।

महोदय,

उपरोक्त विषयक के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि 14वाँ वित्त आयोग की संस्तुतियों के अनुक्रम में प्रदेश की समस्त ग्राम पंचायतों को वित्तीय वर्ष 2017-18 की प्रथम किश्त के लिए कुल धनराशि ₹1625950000.00 (एक सौ बासठ करोड़ उनसठ लाख पचास हजार मात्र) को संलग्नानुसार निम्नलिखित शर्तों के अधीन श्री राज्यपाल महोदय आवंटन की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

- 2- संक्रमित की जा रही धनराशि वेतन एवं भत्तों आदि पर व्यय नहीं की जा सकेगी।
- 3- 14वाँ वित्त आयोग द्वारा संस्तुत की गई धनराशि से निम्न कार्य कराये जा सकते हैं:-
  - (1) जल आपूर्ति (2) सीवरेंज तथा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन (3) सेप्टेज प्रबंधन सहित स्वच्छता (4) जल निकासी (5) सामुदायिक परिसम्पत्तियों का रख-रखाव (6) सड़कों, फुटपाथों, स्ट्रीटलाइट तथा कब्रिस्तानों एवं शमशान घाटों का रखरखाव।
- 4- ग्राम पंचायतों को संक्रमित की गई धनराशि कोषागार से आहरण करने हेतु बिल जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा तैयार किए जाएंगे जिसे जिलाधिकारी द्वारा प्रति हस्ताक्षरित किया जाएगा। ग्राम पंचायतवार देय धनराशि का विवरण संलग्न है।
- 5- जिला पंचायत राज अधिकारी प्रत्येक स्थिति में पन्द्रह दिन के अन्दर सम्बंधित ग्राम पंचायत को धनराशि चैक/ड्राफ्ट/इलैक्ट्रॉनिक ट्रान्सफर के माध्यम से प्रेषित करना सुनिश्चित करेंगे। विलम्ब लिए सम्बंधित जिला पंचायतीराज अधिकारी व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे।
- 6- अवमुक्त धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र जिला पंचायत राज अधिकारी सम्बंधित जिलाधिकारी से प्रतिहस्ताक्षर कराकर महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून, प्रमुख सचिव/सचिव, वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन तथा सचिव, पंचायती राज, उत्तराखण्ड को उपलब्ध करायेंगे। समय से उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त न होने पर भारत सरकार द्वारा अगली किश्त की धनराशि अवमुक्त नहीं की जायेगी। यदि उपयोगिता प्रमाण-पत्र के विलम्ब के कारण कोई धनराशि लैप्स होती है तो उसके लिये जिला पंचायत राज अधिकारी उत्तरदायी होंगे।
- 7- संक्रमित धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त होने पर ही अगली किश्त भारत सरकार द्वारा अवमुक्त की जायेगी। जिला पंचायत राज अधिकारी उपयोगिता प्रमाण-पत्र जिलाधिकारी से प्रतिहस्ताक्षर कराकर दिनांक 30 सितम्बर, 2017 तक उपलब्ध करायेंगे।

- 8- संक्रमित धनराशि का उपयोग केवल उसी कार्य हेतु किया जायेगा जिस कार्य के लिए धनराशि आवंटित की गई है। इसमें किसी प्रकार का व्यावर्तन/समायोजन अनुमन्य नहीं होगा।
- 9-संक्रमित धनराशि के समुचित उपयोग के लिए विभागीय अधिकारी /मुख्य/वरिष्ठ लेखाधिकारी/लेखाधिकारी/सहायक लेखाधिकारी,जैसी भी स्थिति हो उत्तरदायी होंगे।
- 10-यदि किसी ग्राम पंचायत का कोई भाग नगर निगम/नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत में सम्मिलित कर लिया गया हो या किसी ग्राम पंचायत से नई नगर पंचायत/नगर पालिका का गठन हो गया हो अथवा किसी नगर पंचायत से पुनः ग्राम पंचायत का गठन कर दिया गया हो तो ऐसी स्थिति में उस ग्राम पंचायत अथवा नगर पंचायत को अवमुक्त धनराशि का स्थानान्तरण शासन के पत्र सं0-822/XXVII(1)/2014 दिनांक 15 अक्टूबर, 2014 में दी गई व्यवस्था के अनुसार सम्बन्धित निकाय को किया जायेगा जिसकी सूचना सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन को उपलब्ध करायी जायेगी।
- 11-संक्रमित की जा रही धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 की अनुदान संख्या-07 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 3604-स्थानीय निकाय तथा पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन-02-पंचायती राज संस्थायें-198-ग्राम पंचायतें-01-केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें-0103-केन्द्रीय वित्त आयोग से प्राप्त अनुदान-20-सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता के नामे डाला जायेगा।

**संलग्नक:- यथोक्त।**

भवदीय,

( अमित सिंह नेगी )

सचिव, वित्त।

**संख्या 618/XXVII (1)/2015, तददिनांक :-**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- प्रमुख सचिव/सचिव, पंचायती राज, उत्तराखण्ड शासन।
- 2- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 3- आयुक्त गढ़वाल मण्डल पौड़ी/कुमाँऊ मण्डल, नैनीताल उत्तराखण्ड।
- 4- निदेशक, वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग, वित्त आयोग प्रभाग, भारत सरकार, ब्लाक 11,पंचम तल सी0जी0ओ0 कोम्पलेक्स नई दिल्ली।
- 5- निदेशक, कोषागार एवं लेखा हकदारी, 23 लक्ष्मी रोड़ देहरादून।
- 6- निदेशक,पंचायतीराज, उत्तराखण्ड-देहरादून।
- 7- निदेशक, वित्त आयोग निदेशालय, 223 विश्वकर्मा भवन, उत्तराखण्ड शासन।
- 8- समस्त मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी उत्तराखण्ड।
- 9- निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड।
- 10- निजी सचिव, मा0 पंचायतीराज मंत्री, मा0 मंत्री जी के अवलोकनार्थ।
- 11- समस्त जिला पंचायतराज अधिकारी, उत्तराखण्ड।
- 12- एन0आई0सी0 सचिवालय परिसर, देहरादून।

( अमित सिंह नेगी )

सचिव, वित्त।

## बिभागाध्यक्ष का नाम - Secretary Finance

बजट आवंटन वित्तीय वर्ष - 2017-2018

अनुदान शंख्खा 007 (वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय तथा अन्य सेवाये)

लेखाशीर्षक- 3604 - स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन  
 02 - पंचायती राज संस्थाये  
 198 - ग्राम पंचायतें  
 01 - केन्द्र द्वारा पुरोनिधित योजना  
 03 - केन्द्रीय वित्त आयोग से प्राप्त अनुदान

S.No	Treasury	DDO Name	Allotment Id	Allotment Date	Previous Allotment	Current Allotment	Name of local bodies
1	0100-Dehradun	4183-District Magistrate (For Grants)Dehradun	H1707070128	03-JUL-2017	0	142891000	
2	3600-Nainital	4183-District Magistrate (For Grants)Nainital	H1707070130	03-JUL-2017	0	106402000	
3	3700-Almora	4183-District Magistrate (For Grants)Almora	H1707070124	03-JUL-2017	0	178428000	
4	3800-Pithoragarh	4183-District Magistrate (For Grants)Pithoragarh	H1707070132	03-JUL-2017	0	131464000	
5	4000-Gopeshwar	4183-District Magistrate (For Grants)Chamoli	H1707070126	03-JUL-2017	0	111554000	
6	4100-Uttarkashi	4183-District Magistrate (For Grants)Uttarkashi	H1707070134	03-JUL-2017	0	82632000	
7	4200-Garhwal	4183-District Magistrate (For Grants)Pauri	H1707070131	03-JUL-2017	0	190308000	
8	6100-New Tehri	4183-District Magistrate (For Grants)Tehri	H1707070136	03-JUL-2017	0	152770000	
9	6500-Haridwar	4183-District Magistrate (For Grants)Haridwar	H1707070129	03-JUL-2017	0	173007000	
10	7500-U S Nagar	4183-District Magistrate (For Grants)U S Nagar	H1707070135	03-JUL-2017	0	161445000	
11	8800-Champawat	4183-District Magistrate (For Grants)Champawat	H1707070127	03-JUL-2017	0	55443000	
12	8900-Bageshwar	4183-District Magistrate (For Grants)Bageswar	H1707070125	03-JUL-2017	0	77593000	
13	9000-Rudraprayag	4183-District Magistrate (For Grants)Rudraprayag	H1707070133	03-JUL-2017	0	62013000	
<b>Total :</b>						<b>0</b>	<b>1625950000</b>

ju  
 जयदेव सिंह मेरी  
 सचिव, वित्त  
 प्रशासनिक विभाग

जनपद का नाम	क्र.सं.	ग्राम पंचायतों की संख्या	क्षेत्र पंचायत का नाम	14वें वित्त आयोग प्रथम किश्त वित्तीय वर्ष 2017-18
1	2	3	4	5
	3	60	सहसपुर	27214
	4	55	विकासनगर	24604
	5	116	चकराता	17695
	6	111	कालसी	15745
		<b>460</b>	<b>योग</b>	<b>142891</b>
6-हरिद्वार	1	53	भगवानपुर	29564
	2	23	खानपुर	8546
	3	49	रूड़की	27797
	4	61	नारसन	34918
	5	50	लक्ष्मर	24964
	6	72	बहादुराबाद	47218
		<b>308</b>	<b>योग</b>	<b>173007</b>
7-नैनीताल	1	79	ओखलकाण्डा	12332
	2	65	भीमताल	10819
	3	77	बेतालघाट	11298
	4	84	हल्द्वानी	30707
	5	53	रामनगर	13339
	6	60	रामगढ	9300
	7	56	कोटाबाग	12163
	8	37	धारी	6444
		<b>511</b>	<b>योग</b>	<b>106402</b>
8-पौड़ी	1	102	बीरोंखाल	15027
	2	97	द्वारीखाल	14559
	3	102	दुगडडा	23484
	4	82	एकेश्वर	11607
	5	73	जयहरीखाल	10570
	6	87	कल्पीखाल	12866
	7	43	खिर्सू	7448
	8	69	कोट	10491
	9	88	नैनीडाडा	12815
	10	81	रिखणीखाल	12134
	11	107	थलीसैण	16403
	12	86	यमकेश्वर	13620
	13	63	पौड़ी	9569
	14	74	पावौ	11034
	15	58	पोखड़ा	8681
		<b>1212</b>	<b>योग</b>	<b>190308</b>
9-पिथौरागढ़	1	117	गंगोलीहाट	21440
	2	76	मूनाकोट	15098

जनपद का नाम	क्र.सं.	ग्राम पंचायतों की संख्या	क्षेत्र पंचायत का नाम	14वें वित्त आयोग प्रथम किश्त वित्तीय वर्ष 2017-18
1	2	3	4	5
	3	92	कनालीछीना	16762
	4	62	धारचूला	15062
	5	91	पिथौरागढ	15903
	6	71	डीडीहाट	13051
	7	97	मुनस्यारी	19298
	8	84	बेरीनाग	14850
		<b>690</b>	<b>योग</b>	<b>131464</b>
10-रुद्रप्रयाग	1	159	अगस्त्यमुनि	29067
	2	108	जखोली	19876
	3	70	ऊखीमठ	13070
		<b>337</b>	<b>योग</b>	<b>62013</b>
11-टिहरी	1	117	नरेन्द्रनगर	16550
	2	84	कीर्तिनगर	12933
	3	104	चम्बा	14774
	4	116	देवप्रयाग	16316
	5	186	भिलंगना	28345
	6	93	धौलघार	13616
	7	146	जौनपुर	20639
	8	98	प्रतापनगर	15425
	9	92	जाखणीघार	14172
		<b>1036</b>	<b>योग</b>	<b>152770</b>
12-ऊधमसिंह नगर	1	66	खटीमा	29525
	2	74	सितारगंज	28207
	3	54	रुद्रपुर	24653
	4	50	गदरपुर	20187
	5	57	बाजपुर	21195
	6	39	काशीपुर	19103
	7	51	जसपुर	18575
		<b>391</b>	<b>योग</b>	<b>161445</b>
13-उत्तरकाशी	1	83	भटवाडी	16169
	2	99	डुण्डा	15754
	3	81	चिन्चालीसौड़	12321
	4	126	नौगांव	19483
	5	43	पुरोला	6869
	6	68	मोरी	12036
		<b>500</b>	<b>योग</b>	<b>82632</b>
	<b>95</b>	<b>7948</b>	<b>कुल योग :-</b>	<b>1625950</b>

(रिंक सौ बासठ करोड़ उनसठ लाख पचास हजार मात्र)

